

Anand Projects Limited

Regd. Office: 304, Ajadpura, Lalitpur-284403 (U.P) Tel: +91-9891067472
E-mail: companysecretary@anandprojects.com | Website: www.anandprojects.com

To,
Corporate Relation Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

May 29th, 2026

Dear Sir(s),

BSE Code: 501630

Sub.:- Submission of the Newspaper Cuttings for publication of the Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31st, 2026 of the F.Y. 2025-26.

Ref: Compliance of Regulation 47 read with Regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as applicable

Pursuant to Regulation 47(1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the certified copy(s) of Newspaper cuttings of the Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended March 31st, 2026 of the F.Y. 2025-26, published in Newspapers namely (i) Financial Express (English Newspaper) and (ii) Jansatta (Hindi Edition) on 29th May, 2026.

You are requested to take the above information on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For and on behalf of
Anand Projects Limited

Pranjali Gupta
(Company Secretary & Compliance Officer)
ACS: 67377

Noida office: SF001 & 035, 2nd Floor, Ansal Fortune Arcade, Sector-18, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P) Tel.: +91-120-2511389

Corporate Identification Number: L40109UP1936PLC048200

SAR Televance Limited
 CIN: L45202UP2019PLC213062
 Regd. Off.: B-16, First Floor, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301
 Contact: +91-8587050050, Email: info@sartelevance.com

Extract Of Statement Of Standalone Audited Financial Results For The Half Year And Year Ended 31.03.2026
 (Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Half-year ended			Year Ended	
		31.03.2026 Audited	30.09.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	6,413.43	5,622.01	3,260.18	12,035.44	3,798.64
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary Items#)	822.55	771.93	626.44	1,594.48	805.15
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)	822.55	771.93	626.44	1,594.48	805.15
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)	602.23	574.21	438.44	1,176.44	580.52
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	602.23	574.21	438.44	1,176.44	580.52
6	Equity Share Capital	990.95	942.15	942.15	990.95	942.15
8	Earning per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (not annualised)					
	1. Basic	1.26	1.17	0.93	2.47	1.71
	2. Diluted	1.23	1.17	0.90	2.40	1.62

NOTES:
 1. These standalone financial results of SAR TELEVANCE LIMITED ("the Company") has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 along with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").
 2. The above standalone results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 28 May 2026. The statutory auditors have carried out an audit of the standalone results of the Half-year and year ended 31 March 2026.
 3. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) effective from April 01, 2025. The results for half year ended and full year ended March 31, 2025 have been restated to be Ind AS compliant and have not been subjected to limited review or audit. However the management has exercised due diligence to ensure that the financial results provide a true and fair view of the Company's affairs.
 4. The figures for the half year ended 31 March 2026 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the first half year of the financial year which were subject to limited review. The figures of the half year ended March 31, 2025 are balancing figures between Ind AS restated figures for the year ended March 31, 2025.
 5. Previous Period/year figures have been regrouped and/ or rearranged, wherever necessary to make them comparable with the current period/year.
 6. The Company operates in a single operating segment only which is Telecome. Hence, no separate disclosure is required for segments.
 7. The standalone financial results for the half year ended and year ended 31 March 2026 are also being made available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's website: www.sartelevance.com.

For SAR Televance Limited
 Sd/-
 Pankaj Kumar Nagpal
 Managing Director
 DIN: 8469672

Place: Noida
 Date: 28-May-26

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED
 Registered office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmour, Himachal Pradesh-173030
 CIN: L24100HP2002PLC009299; Website: www.prismmedico.in
 Email Id: investorgrievancewml@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2026
 in Lakhs

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		(Audited) Reviewed 31/03/2026	(Unaudited) Reviewed 31/12/2025	(Audited) Reviewed 31/03/2025	(Audited) Reviewed 31/03/2026	(Audited) Reviewed 31/03/2025
1.	Total income from operations (Net)	28.35	7.79	8.37	246.95	64.84
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	-12.29	-1.34	2.26	42.96	-6.58
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-12.29	-1.34	2.26	42.96	-6.58
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-24.07	-1.34	4.15	31.84	-4.87
5.	Prior Period Income Adjustments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-24.07	-1.34	4.15	31.84	-4.87
7.	Equity Share Capital	606.34	606.34	606.34	606.34	606.34
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	934.78	958.85	902.94	934.78	902.94
9.	Earning per share (before extraordinary items) of Rs. 10/- each	-0.004	-0.0002	0.0007	0.0053	-0.0008
10.	Earning per share (after extraordinary items) of Rs. 10/- each	-0.004	-0.0002	0.0007	0.0053	-0.0008

NOTES:-
 1. The above results are as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended and have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 28.05.2026 after being reviewed by the Audit Committee.
 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 3. The company is having single segment in accordance with IND AS 108 "operating segments", and therefore segment reporting is not applicable to the company.
 4. The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures upto the third quarter of the current financial year.
 5. The aggregate effect of material adjustments made in the results of that quarter which pertain to earlier periods - Nil

For and on behalf of Board
 Sd/-
 Davender Singh
 Director (CIN: 09447213)

Place: Kala Amb
 Date: 28.05.2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
 Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)
 (As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Loan Account No.	Name of Obligor(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s)	Amount & Date of Demand Notice	Possession Date
TCHHF035 000010029	M/S Preeti Buildtech Through Its Partners (Borrower), and Mr. Dinesh Tyagi (Co-Borrower) and Mr. Sagar Rajput (Co-Borrower) and Mr. Rahul Tyagi (Co-Borrower)	Rs. 2,38,95,640/- Under Loan Account No. TCHHF0350000 100298604 and Rs. 4,95,078/- under Loan Account No. TCHHF0350000100328890, i.e. totalling of Rs. 2,43,90,718/- (Rs. Two Crore Forty Three Lakh Ninely Thousand Seven Hundred Eighteen Only) outstanding as on 08.12.2025	25.05.2026

Description Of Secured Assets/immovable Properties:- Residential Property Bearing Plot No.45, Land admeasuring 250 Sq. Yards i.e 209 Sq. Mtrs out of Khasra No.794 and 797 Situated in the Revenue Estate of the Village Nawada, colony known as Om Vihar Extension Phase -1, Uttam Nagar, New Delhi 110059 along with all such amenities under sale deed boundaries: East: Road, West: Gali, North: Plot No.46 & South: Plot No.44

DATE :- 29-05-2026
 PLACE:- DELHI

Sd/- AUTHORISED OFFICER,
 FOR TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

SAYAJI HOTELS (PUNE) LIMITED
 CIN : L55204G2018PLC161133
 Regd. Office : Near Kala Ghoda Circle, Sayajiganj, Vadodara, Gujarat-390 020, India
 Tel. No.: 0731-4006666 | Email Id: cs@shplpune.com | Website: www.shplpune.com

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026
 (₹ in Lakhs except figures of EPS)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Financial Year Ended		Quarter Ended		Financial Year Ended	
		31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	2,151.53	1,999.77	8,134.66	7,676.46	2,151.53	1,999.77	8,134.66	7,676.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	538.21	539.20	2,626.08	2,364.02	510.70	504.64	2,597.82	2,300.79
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	538.21	539.20	2,626.08	2,364.02	510.70	504.64	2,597.82	2,300.79
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	390.64	-404.09	1,965.98	1,761.98	363.16	365.13	1,940.34	1,694.72
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	389.91	-407.24	1,965.00	1,755.58	362.43	368.28	1,939.36	1,688.32
6	Equity Share Capital	304.66	304.66	304.66	304.66	304.66	304.66	304.66	304.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	7,950.99	-	-	-	7,877.61
8	Earnings Per Share (of ₹10/-each) (for continuing and discontinued operations)								
	Basic:	12.82	13.26	64.53	57.83	11.92	11.99	63.69	55.63
	Diluted:	12.82	13.26	64.53	57.83	11.92	11.99	63.69	55.63

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com & Company's website at www.shplpune.com and the same can be accessed by scanning the QR Code attached below.

By the Order of the Board
 For Sayaji Hotels (Pune) Limited
 Sd/-
 Nimeshkumar Natwarlal Gandhi
 Independent Director

Place : Vadodara
 Date : 28.05.2026

SAMTEX FASHIONS LIMITED
 Regd. Office & Works: Khasra No 62, D 1/3 Industrial Area, Rajampur, Sikandrabad, Bulandshahr UP 203205 IN
 CIN: L17112UP1993PLC022479 Email: samtex.compliance@gmail.com, Website: samtexfashions.com, Ph. No.: 011-49025972

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026
 (Rs. In Lakhs except per share data)

Sl No	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter Ended		Year ended		Quarter Ended		Year ended			
		31.03.2026 Audited	31.12.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited	31.03.2026 Audited	31.12.2025 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited		
1	Total Income from operations	0.14	-	0.07	0.14	0.22	6.03	-	1.4	7.69	3.13
2	Net profit/loss for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.18	-8.36	-7.01	-31.82	-29.57	-10.07	-6.46	-3.18	-37.08	-39.56
3	Net profit/loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.18	-8.36	-7.01	-31.82	-29.57	-10.07	-6.46	-3.18	-37.08	-39.56
4	Net profit/loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.18	-8.36	-7.01	-31.82	-29.57	-10.07	-6.46	-3.18	-37.08	-39.56
5	Total Comprehensive income for the period (Composing Profit/Loss for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	-6.64	-8.32	-8.99	-31.18	-29.23	7.26	2.09	-3.01	4.19	-28.09
6	Paid up equity shares	1490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00	1490.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-1,521.75	-1,490.56	-	-	-25451.39	-25455.57	-
8	Earnings Per Share (before extraordinary items) Basic (Face Value Rs.2 Per share)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.04	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.04
9	Earnings Per Share (before extraordinary items) Diluted (Face Value Rs.2 Per share)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.04	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.04

Note:
 1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the above results have been subject to limited review by the auditors of the company and have been re-viewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on May 28, 2026.
 2. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 3. The figures of the last periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current quarter's classifications.
 4. The figures for the quarter ended March 31, 2026 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2026 and the unaudited published year to date figures upto December 31, 2025, being the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.
 5. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone year ended Financial Results are available on the stock exchange website at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.samtexfashions.com and these can also be accessed through the QR code given below.

For Samtex Fashions Limited
 Sd/-
 Atul Mittal
 Chairman & Managing Director
 DIN :00223366

Place : Delhi
 Date : 28.05.2026

ANAND PROJECTS LIMITED
 Regd. Office: House No. 304, Ajad Pura Lalitpur -284403 Uttar Pradesh
 Web Site: www.anandprojects.com, Phone No - 0120-2511389,
 CIN: L40109UP1936PLC048200

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026
 (₹ in Lakh, except per share data)

SI No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Three months ended	Corresponding three months ended	Current Year ended	Three months ended	Corresponding three months ended	Current Year ended
		31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited	31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited
1	Total Income from Operations	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	120.00
2	Net Profit for the period before tax	(408.53)	(108.60)	(22.02)	(408.53)	(108.60)	(22.02)
3	Net Profit for the period after tax	(305.71)	(100.10)	(58.15)	(305.71)	(100.10)	(58.15)
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(305.37)	(100.20)	(57.81)	(305.37)	(100.20)	(57.81)
5	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- per share)	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43
6	Other equity/ Other Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	-	-	(132.99)	-	-	(132.99)
7	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not Annualised)						
	Basic	(32.721)	(10.714)	(6.224)	(32.721)	(10.714)	(6.224)
	Diluted	(32.721)	(10.714)	(6.224)	(32.721)	(10.714)	(6.224)

Notes:
 1) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchange website, www.bseindia.com and on the Company website www.anandprojects.com. (Email id: companysecretary@anandprojects.com).
 2) Results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.
 3) The Company does not have any exceptional item or extraordinary item to report for the above periods.
 4) Figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.
 5) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 28th May 2026.

For and on behalf of the Board of Directors of Anand Projects Limited
 Sd/-
 Rajesh Kumar Sharma
 Whole Time Director & CFO
 DIN - 09388677

Place: Noida
 Date: 28th May 2026

DSM Fresh Foods Limited
 (Formerly known as DSM Fresh Foods Private Limited)
 CIN: L52203DL2015PLC280514
 Regd. Office: 115-116, First Floor, Vishal Tower, District Centre, Janakpuri B-1, New Delhi - 110058

EXTRACT OF THE STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026
 (₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Half Year Ended		Year Ended	
		31-03-2026	30-09-2025	31-03-2026	31-03-2025
1	Total Income from Operations (Net)	12,611.73	9,619.20	22,230.93	13,147
2	Net Profit / (Loss) for the year before Tax	1153.11	1167.06	2320.18	1165.14
3	Net Profit / (Loss) for the year after Tax	733.80	702.98	1436.78	902.76
5	Paid-up Share Capital	2228.71	2228.71	2228.71	2228.71
6	Earnings Per Share (Face Value ₹ 10 each)				
	- Basic	6.64	8.58	7.48	5.51
	- Diluted	6.64	8.58	7.48	5.51

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026
 (₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Half Year Ended		Year Ended	
		31-03-2026	30-09-2025	31-03-2026	31-03-2025
1	Total Income from Operations (Net)	12,611.73	9,619.20	22,230.93	13,147
2	Net Profit / (Loss) for the year before Tax	1149.43	1167.06	2316.50	1165.14
3	Net Profit / (Loss) for the year after Tax	731.05	702.98	1434.03	902.76
5	Paid-up Share Capital	2228.71	2228.71	2228.71	2228.71
6	Earnings Per Share (Face Value ₹ 10 each)				
	- Basic	6.64	8.58	7.46	5.51
	- Diluted	6.64	8.58	7.46	5.51

Notes:
 • The above is an extract of the detailed format of half year and year ended March 31, 2026 Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
 • The full format of the half year and year ended Audited Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the Company's website.
 • The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 27, 2026 in compliance with the applicable provisions of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

For and on behalf of the Board
 DSM Fresh Foods Limited
 (Formerly known as DSM Fresh Foods Private Limited)
 Deepanshu Manchanda
 Managing Director
 DIN: 07108044

Place: New Delhi
 Date: May 29, 2026

देश

पंजाब की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, आज होगी दिल्ली में अहम बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 मई।

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर शुकवार को दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी आलाकमान की अगुआई में अहम बैठक में पंजाब चुनाव को लेकर रणनीति

बैठक में राहुल समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल।

तैयार होगी। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पंजाब प्रदेश इकाई से जुड़े सभी नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। देश के चुनावी राज्यों में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्धिकरण (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग अपना कार्यक्रम भी घोषित कर चुका है। इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी को सक्रिय करने के लिए यह बैठक बुलाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार

से इस प्रक्रिया का नुकसान पार्टी को न हो। इससे सचेत रहने के लिए पार्टी इस बैठक में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीते चुनाव में हुई एसआइआर प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश वघेल, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, चरण जीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह आदि को बुलाया गया है।

RITCO		रिटको लॉजिस्टिक्स लिमिटेड			
508, ज्योति शिखर टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058		कोर्पोरेट पहचान संख्या: L60221DL2001PLC112167			
31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश		(इंजीएस को छोड़कर लाख रुपये में)			
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति		वर्ष समाप्ति	
		मार्च 31, 2026 (लेखापरीक्षित)	दिसम्बर 31, 2025 (अनुसूचित)	मार्च 31, 2026 (लेखापरीक्षित)	मार्च 31, 2025 (लेखापरीक्षित)
1.	संचालन से कुल आय	39,183.43	39,264.22	34,540.58	1,49,919.03
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, आपसविक और/या असाधारण मद)	629.05	1,451.54	1,610.05	4,787.97
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपसविक मद परभाव)	629.05	1,451.54	1,610.05	4,787.97
4.	कर परभाव अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपसविक मद परभाव)	400.87	963.54	1,149.63	3,192.40
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर परभाव) और अन्य कुल व्यापक आय (कर परभाव) शामिल]	407.06	962.96	1,139.86	3,212.64
6.	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	33,580.87
7.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये)	1.96	3.72	4.19	12.59
	(1) मूलभूत	1.96	3.72	4.19	12.59
	(2) वित्तीय	-	-	-	-

नोट:
1. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति		वर्ष समाप्ति	
		मार्च 31, 2026 (लेखापरीक्षित)	दिसम्बर 31, 2025 (अनुसूचित)	मार्च 31, 2026 (लेखापरीक्षित)	मार्च 31, 2025 (लेखापरीक्षित)
1.	संचालन से कुल आय	38,458.16	38,880.86	34,431.15	1,48,423.96
	कर पूर्व लाभ	1,324.91	1,866.62	1,805.75	6,583.58
	कर परभाव लाभ	1,096.72	1,378.62	1,345.32	4,988.01
	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये)	3.84	4.82	4.96	17.45
	(1) मूलभूत	3.84	4.82	4.96	17.45
	(2) वित्तीय	-	-	-	-

2. उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा अपनी-अपनी बैठकों में दिनांक 27 मई, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3. उपरोक्त विवरण, वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है, जिसे शेयर बाजार में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत तिमाही एवं वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2026 के लिए प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.ritcologistics.com) पर उपलब्ध है। उक्त परिणाम निम्न लिंक के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं: <https://www.ritcologistics.com/98> तथा नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है।

4. आयकर एवं/अथवा असाधारण मदों को, जहां भी लागू हो, इन्-एएस नियमों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में समाविष्ट किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से
हस्ता/-
मन मोहन पाठ सिंह चड्ढा,
अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 29 मई, 2026

GOOD YEAR

GOODYEAR INDIA LIMITED

CIN: L25111HR1961PLC008578

REGISTERED OFFICE: MATHURA ROAD, BALLABGARH (DIST. FARIDABAD) - 121004, HARYANA

Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Current 3 months ended (31/03/2026)	Previous 3 months ended (31/12/2025)	Corresponding 3 months ended (31/03/2025)	Year to date figures for current year ended (12 Months) (31/03/2026)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2025)
	(Unaudited) (Refer Note 6)	(Unaudited) (Refer Note 6)	(Unaudited) (Refer Note 6)	(Audited)	(Audited)
1. Total Income from operations	62,117	61,152	60,673	249,458	262,557
2. Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,316	3,529	681	10,493	7,468
3. Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,333	3,335	681	8,316	7,468
4. Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	969	2,463	487	6,150	5,512
5. Total Comprehensive Income/(loss) for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax))	669	2,475	450	5,837	5,610
6. Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307
7. Earnings/(loss) Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):					
(a) Basic (Rs.)	4.20	10.68	2.11	26.66	23.90
(b) Diluted (Rs.)	4.20	10.68	2.11	26.66	23.90

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e. www.goodyear.co.in/investor-relations. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
- The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".
- The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 26.50 per equity share of Rs. 10 each for the Financial Year ended March 31, 2026, aggregating to Rs. 6113 lakhs, subject to approval of Members at the ensuing Annual General Meeting. The register of members and share transfer books will remain closed from August 6, 2026 to August 12, 2026 (both days inclusive).
- The Government of India, vide notification dated November 21, 2025, has brought into effect the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (collectively referred to as the "Labour Codes"), which subsume and replace multiple existing labour legislations. In accordance with Ind AS 19 - Employee Benefits, changes to employee benefit plans arising from the implementation of the Labour Codes are treated as plan amendments. Accordingly, the impact of such changes is required to be recognised immediately in the Statement of Profit and Loss as past service cost. This accounting treatment is in line with the guidance issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Pursuant to the above, during the previous quarter ended December 31, 2025, the Company had assessed the impact of the Labour Codes and recognised past service cost aggregating to ₹194 lakhs towards gratuity and compensated absences, which was included under Employee Benefits Expense in the financial results for the said period. During the current quarter, based on actuarial valuation, the Company has reassessed the impact and recognised an additional past service cost of ₹184 lakhs in respect of gratuity and compensated absences pertaining to the previous quarter. The said amount has been presented under "Exceptional item" in the financial results for the quarter ended March 31, 2026. Accordingly, the impact recognised in the previous quarter ended December 31, 2025 has been reclassified to the exceptional item in line with the current quarter. The Company continues to closely monitor developments relating to the notified rules under the Labour Codes, including further clarifications and guidance from regulatory authorities, and will assess the consequential accounting implications, if any, in the periods ahead.
- The figures of last quarter of current and previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year which are subject to limited review.
- This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2026. The financials results for the quarter and year ended March 31, 2026 have also been subjected to limited review/audited by the Statutory Auditors of the Company.

For GOODYEAR INDIA LIMITED

Sd/-
Arvind Bhandari
Chairman & Managing Director

Place: Gurugram
Date: May 28, 2026

अंका इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L74900HR1994PLC033268

पंजीकृत प्लॉट नंबर 271, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18, पालम रोड, गुडगांव, पालम रोड, हरियाणा, भारत, 122015
ईमेल: response@ankaindia.com, फोन: +91-935551187, वेबसाइट: <https://www.ankaindia.com/>

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेकृत

समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का उद्घरण

विवरण	स्टैंडअलोन						समेकित					
	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
	31-मार्च-26 (लेखापरीक्षित)	31-दिस-25 (अनुसूचित)	31-मार्च-26 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-25 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-26 (लेखापरीक्षित)	31-दिस-25 (अनुसूचित)	31-मार्च-26 (लेखापरीक्षित)	31-दिस-25 (अनुसूचित)	31-मार्च-26 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-25 (लेखापरीक्षित)		
संचालन से कुल आय	18.03	-	18.00	-	254.63	354.25	537.85	1,839.43	1,236.02			
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) तथा एक्सपेंडर और संकुचन उपक्रम में (हानि)/लाभ का शेर	1.77	(728.66)	14.41	(742.41)	33.40	(45.48)	8.21	(3.62)	(26.58)	(37.91)		
कर एवं अपवाहित मदों के परभाव अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि)	2.33	(728.66)	14.41	(741.85)	23.23	(50.88)	(3.33)	(1.64)	(46.34)	(36.25)		
अवधि हेतु कुल व्यापक (हानि)/आय	2.33	(728.66)	14.41	(741.85)	23.23	(54.70)	(1.57)	(1.42)	(46.09)	(20.52)		
प्रति शेयर आय (₹. 10/- प्रत्येक का अंकेकृत मूल्य)	515.42	515.42	134.71	443.66	134.71	515.42	515.42	361.56	485.40	361.56		
पुनर्मुल्यांकन आवधिकियों को छोड़कर अवधि (₹. 10/- प्रत्येक का अंकेकृत मूल्य)												
अन्य प्रति शेयर (₹. 10/- प्रत्येक के) बोनस	0.00	(1.41)	0.11	(1.67)	0.17	(0.10)	(0.01)	(0.00)	(0.10)	(0.10)		
डायव्जुटिड	(0.10)	(0.01)	(0.00)	(0.10)	(0.10)	(0.10)	(0.01)	(0.00)	(0.10)	(0.10)		

टिप्पणियाँ:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस"), इसके तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित और लागू सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार तैयार उपरोक्त लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित तिमाही वित्तीय परिणामों को लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और सिफारिश की गई और बाद में 28 मई, 2026 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।
- उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाख 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (<https://www.ankaindia.com>) पर उपलब्ध हैं।



स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 28.05.2026

बोर्ड के आदेश से
अंका इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
रमेश सुंदर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11416018

SALORA

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74899DL1968PLC004962

पंजीकृत कार्यालय: D-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-IV, नई दिल्ली - 110020

हमारी वेबसाइट देखें: www.salora.com

अंकेकृत वित्तीय निष्कर्षों के विवरण का निष्कर्ष

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेकृत वित्तीय निष्कर्षों का विवरण

विवरण	(राशि लाख रुपये में)				
	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
संचालन से कुल आय	1,159.49	1,649.52	5,321.16	6,327.28	15,274.54
टैक्स पूर्व लाभ/(हानि) (असाधारण मद सहित)	(306.38)	(63.51)	(27.66)	(468.31)	(171.79)
अवधि के लिए टैक्स पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	(286.57)	(49.34)	(20.62)	(407.46)	(132.61)
कुल व्यापक आय (जिसमें टैक्स पश्चात लाभ / (हानि) तथा टैक्स पश्चात अन्य व्यापक आय शामिल है)	(282.13)	(50.09)	(23.90)	(405.27)	(135.60)
चुकता इकिटी शेयर पूंजी	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73
बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार रिजर्व	-	-	-	4,218.09	4,623.35
प्रति शेयर आय (₹. 10/- प्रत्येक)					
बैसिक एवं डायव्जुटिड प्रति शेयर आय	(3.25)	(0.56)	(0.23)	(4.63)	(1.51)

नोट्स:

- उपरोक्त वित्तीय निष्कर्षों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा तथ्यदात इन्हें 28 मई, 2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया एवं इन निष्कर्षों का अंकेकृत कंपनी के सार्वजनिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।
- दिनांक 23 जनवरी, 2026 को अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP को गुण-दोष के आधार पर स्वीकार कर लिया गया है तथा मामले में स्वगन जारी है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें सभी स्वीकार की जाती हैं जब न्यायालय को मामले में पर्याप्त गुण-दोष प्रतीत होते हैं। इस मामले में आकस्मिक देयता यथावत बनी रहेगी।
- 31 मार्च, 2026 तक ₹. 2038.78 लाख की स्थगित टैक्स परिसंपत्तियां (जिसमें ₹. 984.26 लाख अप्रयुक्त व्यावसायिक हानियों के कारण शामिल हैं) के साकार होने की अपेक्षा है, क्योंकि कंपनी ने अपने उद्यम डेटाफॉलोपियो का विस्तार किया है तथा अधिक गहन पहुंच एवं बेहतर परिचालन दक्षता की नई व्यवसायिक रणनीति अपनाई है।
- इंड एस-108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार कंपनी का केवल एक रिपोर्ट योग्य सेगमेंट है अर्थात् "कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज"।
- भारत सरकार ने 29 वर्तमान श्रम कानूनों को समेकित कर चार श्रम संहिताओं वाले एकीकृत ढांचे में परिवर्तित किया है, जिन्हें सामूहिक रूप से नई श्रम संहिताएं कहा जाता है। नई श्रम संहिताएं 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो गई हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी द्वारा आकलित इन परिवर्तनों का अतिरिक्त प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है तथा इसे 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्कर्षों में मान्यता दी गई है।
- प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण के कारण कंपनी अप्रयुक्त व्यावसायिक हानियों पर स्थगित टैक्स परिसंपत्तियों का उपयोग करने हेतु लाभ अर्जित नहीं कर सकी। ₹. 237.77 लाख की राशि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई। इस राशि को बड़े खालों में डाल दिया गया है तथा इसे 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय निष्कर्षों में असाधारण मदों के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- पूर्ववर्ती संबंधित अवधि के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ है, तुलनात्मक बनाने हेतु पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2026

आनंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: हाउस नं. 304, आजाद भूरा ललितपुर-284403 उत्तर प्रदेश

वेबसाइट: www.anandprojects.com, फोन नं.: 0120.2511389.

सीआईएन: L40109UP1936PLC048200

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के अंकेकृत वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही	संबंधित तीन महीने समाप्त हुए	वर्ष समाप्त	समाप्त तिमाही	संबंधित तीन महीने समाप्त हुए	वर्ष समाप्त
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026
1.	संचालन से कुल आय	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	120.00
2.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ	(408.53)	(108.60)	(22.02)	(408.53)	(108.60)	(22.02)
3.	कर परभाव की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	(305.71)	(100.10)	(58.15)	(305.71)	(100.10)	(58.15)
4.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है]	(305.37)	(100.20)	(57.81)	(305.37)	(100.20)	(57.81)
5.	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹ 10/- का अंकेकृत मूल्य)	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43
6.	अन्य इक्विटी/अन्य रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	(132.99)	-	-	(132.99)
7.	प्रति शेयर आय (₹ 10/- प्रत्येक) (सामिगात नहीं)						
	बैसिक	(32.721)	(10.714)	(6.224)	(32.721)	(10.714)	(6.224)
	डायव्जुटिड	(32.721)	(10.714)	(6.224)	(32.721)	(10.714)	(6.224)

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त विवरण, सेबी (लिटिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिकवियरमेंट्स) रेगुलेश